

विधिक सेवा शिविर से अधिकाधिक लोग हों लाभान्वित- सक्सेना

2 जून को आयोजित होगा विधिक सेवा शिविर

झुंझुनू, 10 मई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतुल कुमार सक्सेना ने कहा कि 2 जून को आयोजित होने वाले विधिक सेवा शिविर का अधिकाधिक आमजन लाभ उठा सकें, यह सुनिश्चित किया जाए।

सक्सेना शुक्रवार को जिला न्यायाधीश अवकाशागार में विधिक सेवा शिविर संबंधी तैयारी बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह शिविर एस एस मोदी विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। जिला व न्याय प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस एक दिवसीय शिविर का उद्देश्य है कि आमजन को एक ही छत के नीचे विधिक सेवाओं व विभिन्न योजनाओं की जानकारी व लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों की स्टॉल्स लगेंगी, जहां विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर स्थल पर सफाई, टेन्ट, स्टेज, सजावट, पेयजल, शौचालय, ट्रेफिक, फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, माईक, भोजन आदि की पुख्ता व्यवस्था की जाए। सक्सेना ने कहा कि शिविर के दौरान उपस्थित आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए व आवश्यकतानुसार स्काउट-गाइड के वॉलन्टियर्स भी नियुक्त किए जाएं। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा आमजन का हैल्थ चेकअप, टीकाकरण किया जाए साथ ही वन विभाग द्वारा पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाए। यहां ई-मित्र काउंटर भी लगाया जाए, जिसके माध्यम से आमजन लाभान्वित हो सकें। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर स्मारिका प्रकाशित की जाएगी व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मधु हिसारिया ने कहा कि नालसा माँड्युल योजना के तहत आयोजित होने वाले विधिक सेवा शिविर हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारी समय रहते तैयारियां शुरू कर दें। संबंधित विभाग पूर्ण समन्वय से कार्य करें, जिससे शिविर का सुचारू संचालन हो सके। इस अवसर पर जिला परिषद एसीईओ प्रतिष्ठा पिलानिया, पुलिस उपाधीक्षक ममता सारस्वत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।